



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 19, 1977/माघ 30, 1898

No. 53] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 19, 1977/MAGHA 30, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

ORDER

New Delhi, the 19th February 1977

G.S.R. 76(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 4B of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, and in supersession of the Order of the Government of India in the late Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) No. G.S.R. 10(E) dated the 17th January, 1975, the Vegetable Oil Products Controller for India hereby prescribes that, in addition to the limits of usage of refined vegetable oils specified in sub-clause (a) of the clause (2) of paragraph 2 of the First Schedule to the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Order, 1975, the limits specified in column (3) of the Table below as the minimum limit of usage of the vegetable oils specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table in the manufacture of vegetable oil product (other than product manufactured for non-edible industrial use) in the regions specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table

THE TABLE

Name of vegetable oil	Region	Limit of usage (per cent by weight of vegetable oil product)
(1)	(2)	(3)
1 Imported vegetable oils	All Regions	75
2 Cotton seed oil	All Regions	15

This Order shall come into force on the 1st March, 1977

[No 9-VP(1)/76 Vol. II]

B N JAYASIMHA,
Vegetable Oil Products Controller for India.

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1977

सा० का० नि० 76 (अ).—वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खण्ड 4 ख के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं० सा० का० नि० 10 (अ), तारीख 17 जनवरी, 1975 को अधिष्ठात करते हुए भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक इस आदेश द्वारा, वनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी के मानक) आदेश, 1975 की प्रथम अनुसूची के पैरा 2 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) में विनिर्दिष्ट वनस्पति तेलों के उपयोग की सीमाओं के प्रतिरिक्त, नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट सीमाओं को, उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट वनस्पति तेलों के, वनस्पति तेल उत्पादों के विनिर्माण में (उन उत्पादों से भिन्न जो अखाद्य औद्योगिक प्रयोग के लिये विनिर्मित किये जाये) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रदेशों में उपयोग के लिये न्यूनतम सीमाओं के रूप में विहित करते हैं।

सारणी

वनस्पति तेल का नाम	प्रदेश	उपयोग की सीमा (वनस्पति तेल उत्पाद के भार का प्रतिशत)
1	2	3
1. आयातित वनस्पति तेल	सभी प्रदेश	75
2. विनोले का तेल	सभी प्रदेश	15

यह आदेश 1 मार्च, 1977 को प्रवृत्त होगा।

[स० 9-वीपी (1)/76 -वीओएल II]

बी० एन० जयसिम्हा,
भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977